



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

## “ऑपरेशन पाताल” के तहत 03 TOP 10 सहित 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कुल 05 अवैध शस्त्र बरामद

दिनांक 28.05.22

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा “ऑपरेशन पाताल” चलाकर अपराध को अपनी आय का स्रोत बना लेने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए थे।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपदीय पुलिस को “ऑपरेशन पाताल” चलाकर सघन चेकिंग एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देशों के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा सघन अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों से कुल 05 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार 03 अभियुक्त टॉप 10 अपराधी भी हैं। जिनसे कुल 05 अवैध शस्त्र व 06 कारतूस बरामद हुए हैं। थाना लहरपुर, कोतवाली नगर व इमलिया सुल्तानपुर के अभियुक्तों पर पूर्व में विभिन्न अपराधों (लूट/चोरी/नकबजनी/अवैध शराब/गोवध) से संबंधित धाराओं में कई अभियोग पंजीकृत हैं। थानावार विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं	थाना	अभियुक्तों की संख्या	ऑपरेशन पाताल के अन्तर्गत कार्यवाही	
			पंजीकृत अभियोग	शस्त्र विवरण
1	लहरपुर	01 टॉप 10 01 अन्य	02	02
2	कोतवाली नगर	01 टॉप 10	01	01
3	इमलिया सुल्तानपुर	01 टॉप 10	01	01
4	रामपुर मथुरा	01 अन्य	01	01
	<b>योग</b>	<b>03 टॉप 10, 02 अन्य</b>	<b>05</b>	<b>05</b>

1. थाना लहरपुर द्वारा दो अवैध तमंचा/कारतूस सहित एक टॉप 10 सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना लहरपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान टॉप 10 अभियुक्त शाबान पुत्र मुन्ना नि० मो.भूलनपुर थाना लहरपुर 2.रामलखन मौर्य पुत्र स्व० भगवानदीन नि० चंदेसुवा थाना लहरपुर सीतापुर को एक-एक अदद अवैध तमंचा व कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मु०अ०सं० 318/22, 319/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया है। **उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शाबान उपरोक्त थाना लहरपुर का टॉप 10 अपराधी भी हैं, जिसके विरुद्ध गोवध जैसे अपराध में पूर्व में अभियोग पंजीकृत हैं।**
2. थाना कोतवाली नगर द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 टॉप 10 अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना को.नगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान टॉप 10 अपराधी इरफान पुत्र नसीम नि० महेन्द्र टोला पुरानी बाजार थाना खैराबाद जनपद सीतापुर को 01 अदद तमंचा व कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मु०अ०सं० 234/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया है। **उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खैराबाद का टॉप 10 अपराधी भी हैं, जिसके विरुद्ध चोरी/नकबजनी आदि विभिन्न धाराओं में पूर्व में कई अभियोग पंजीकृत हैं।**
3. थाना इ.सु.पुर द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित टॉप 10 अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना इ.सु.पुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त उमेश पुत्र हरिनाम नि० बीबीपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर को एक अदद देशी नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 अदद कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के संबंध में मु०अ०सं० 215/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। **उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना इमलिया सुल्तानपुर का टॉप 10 अपराधी भी हैं, जिसके विरुद्ध लूट/चोरी/नकबजनी/अवैध शराब आदि विभिन्न धाराओं में पूर्व में करीब एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।**
4. थाना रामपुरमथुरा द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना रामपुर मथुरा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त पिंटु पुत्र रहमुद्दीन नि० नटनिया थाना रामपुरमथुरा सीतापुर के पास से 01 अदद तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया है।



